

પૂરક પોષણની દૈનિક માત્રા

નીચેના તત્ત્વોની પૂરક ક્રિયા પૂરી પાડે છે

કુદરતી જિનસેગ, વિટામિન્સ અને ખનીજ તત્ત્વો

રીવાઇટલ એચ મેન

ટેન્ડ્યુર ટીક પોષક પદાર્થો

પૂરતી વિનસેગનું મહત્ત્વ	212.5 (કેક) મિલગ્રામ
વિટામિન બી	1590 મગ્રામ
વિટામિન બી 1	1 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 2	1.4 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 3	10 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 5	0.8 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 12	0.8 મેગ્રાકોલ
વિટામિન બી 6	33 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 7	300 મગ્રામ
વિટામિન બી 9	7 મિલગ્રામ
ફોલિક એસિડ	6.08 મિલગ્રામ
કોલેસ્ટ્રોલ	76.9 મિલગ્રામ
ફોસ્ફોરસ	39.48 મિલગ્રામ
આયર્ન	10.29 મિલગ્રામ
લોહ	10 મિલગ્રામ
મેગ્નેશિયમ	3.73 મિલગ્રામ
એલ્યુમિનિયમ	0.6 મિલગ્રામ
કાર્બન	0.52 મિલગ્રામ
સલ્ફર	0.1 મિલગ્રામ
પોટશિયમ	2.07 મિલગ્રામ

રીવાઇટલ એચ વુમન

ટેન્ડેટ ટીક પોષક પદાર્થો

પૂરતી વિનસેગનું મહત્ત્વ	212.5 (કેક) મિલગ્રામ
વિટામિન બી	1300 મગ્રામ
વિટામિન બી 1	0.8 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 2	0.68 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 3	7 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 6	1.6 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 12	0.8 મેગ્રાકોલ
વિટામિન બી 5	30 મગ્રામ
વિટામિન બી 9	5 મિલગ્રામ
વિટામિન બી 1	25 મેગ્રાકોલ
ફોલિક એસિડ	0.08 મિલગ્રામ
કોલેસ્ટ્રોલ	28 મેગ્રાકોલ
કોલેસ્ટ્રોલ	250 મિલગ્રામ
ફોસ્ફોરસ	125 મિલગ્રામ
આયર્ન	16 મિલગ્રામ
લોહ	21 મિલગ્રામ
મેગ્નેશિયમ	100 મિલગ્રામ
એલ્યુમિનિયમ	4 મિલગ્રામ
કાર્બન	1.7 મિલગ્રામ
સલ્ફર	0.1 મિલગ્રામ
ફોસ્ફોરસ	40 મેગ્રાકોલ
કોલેસ્ટ્રોલ	30 મેગ્રાકોલ



રીવાઇટલ એચ

દ્વારા એક પહેલ

“સારું આરોગ્ય બજારમાં વેચાતું મળતું નથી. પણ, તે અત્યંત મૂલ્યવાન બચત ખાતું હોઈ શકે છે”

Anne Wilson Schaeff

સારા સ્વાસ્થ્યને તમારા જીવનની પ્રાથમિકતા બનાવો...

1. મહત્ત્વ પૂરતી જાણ: સુસ્થા સ્વસ્થતા યોગ્ય સ્વસ્થતા નથી! 2. મહત્ત્વ પૂરતી જાણ: મન યોગ્ય સ્વસ્થતા યોગ્ય સ્વસ્થતા નથી! 3. મહત્ત્વ પૂરતી જાણ: મન યોગ્ય સ્વસ્થતા યોગ્ય સ્વસ્થતા નથી! 4. મહત્ત્વ પૂરતી જાણ: મન યોગ્ય સ્વસ્થતા યોગ્ય સ્વસ્થતા નથી!

આ દૈનિક પોષણ માટેના સૂચનોના આધારે, આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે. આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.

આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે. આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.



પૂરતી પોષણ માટેની જાણ	આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.
આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.	આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.
આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.	આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.
આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.	આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.
આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.	આ પોષણ દૈનિક ચાર્ટ અહીં પ્રદર્શિત છે.

રિટક ન રિ

શુભ આચરણ અને શુભ સ્વસ્થતા આપણને શુભ આચરણ આપે છે.

প্রতিদিনের অতিরিক্ত পুষ্টির ডোজ

Good HEALTH MORNINGS

প্রাকৃতিক জিনসেও,
ভিটামিন ও খনিজের

সম্পূর্ণক্রিয়াকলাপের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে

রিভাইটাল এইচ. ওমেন	
কোনোপন পিতৃ পুষ্টির তথ্য	
প্রাকৃতিক শ্যানন জিনসেও	212.5 (3%) মিলিগ্রাম
ভিটামিন এ	1500 আইই
ভিটামিন বি১	1 মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি২	1.4 মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি৩	10 মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি৬	0.8 মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি১২	0.8 মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন সি	33 মিলিগ্রাম
ভিটামিন ডি৩	300 আইই
ভিটামিন ই	7 মিলিগ্রাম
ফলিক অ্যাসিড	0.08 মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম	75.9 মিলিগ্রাম
ফসফরাস	59.43 মিলিগ্রাম
সিঙ্ক	10.29 মিলিগ্রাম
আয়রন	10 মিলিগ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম	3.13 মিলিগ্রাম
ম্যানগানিজ	0.6 মিলিগ্রাম
কপার	0.52 মিলিগ্রাম
অ্যান্‌জিন	0.1 মিলিগ্রাম
পটাশিয়াম	2.07 মিলিগ্রাম

রিভাইটাল এইচ. ওমেন	
কোনোপন পিতৃ পুষ্টির তথ্য	
প্রাকৃতিক শ্যানন জিনসেও	212.5 (3%) মিলিগ্রাম
ভিটামিন এ	1500 আইই
ভিটামিন বি১	0.8 মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি২	0.88 মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি৩	7 মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি৬	1.5 মিলিগ্রাম
ভিটামিন বি১২	0.8 মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন সি	30 মিলিগ্রাম
ভিটামিন ডি২	300 আইই
ভিটামিন ই	5 মিলিগ্রাম
ভিটামিন কে১	25 মাইক্রোগ্রাম
ফলিক অ্যাসিড	0.08 মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম	20 মাইক্রোগ্রাম
ফসফরাস	250 মিলিগ্রাম
সিঙ্ক	125 মিলিগ্রাম
আয়রন	21 মিলিগ্রাম
ম্যাগনেসিয়াম	100 মিলিগ্রাম
ম্যানগানিজ	4 মিলিগ্রাম
কপার	1.7 মিলিগ্রাম
অ্যান্‌জিন	0.1 মিলিগ্রাম
সেলেনিয়াম	40 মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন কে২	30 মাইক্রোগ্রাম



রিভাইটাল এইচ

এর একটি উদ্যোগ

“সুস্বাস্থ্য এমন একটা জিনিস, যেটা কেনা যায় না। তবে সুস্বাস্থ্য অত্যন্ত মূল্যবান সেভিংস অ্যাকাউন্ট হতে পারে

Aine Wilson Schaaf

সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলতেই আপনার জীবনে অগ্রাধিকার দিতে হবে...

১. ওয়ার্ল্ড হেলথ ডেটা রিপোর্ট, ওয়ার্ল্ড হেলথ, ২০১৬, ভার্শিয়ন ১০, পৃষ্ঠা ১, ৬-১৭.
২. হেলথইন্ডেক্স, ওয়ার্ল্ড হেলথ ইনস্টিটিউট অফ ডিজিটাল হেলথ এন্ড সিস্টেমস পাবলিক উইলস্ - এ অফল লাইভ, লন্ডন।

রিভাইটাল এইচ. ওমেন পুষ্টি উপাদানগুলোর তালিকা: প্রাকৃতিক শ্যানন জিনসেও, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি৩, ভিটামিন ই, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সিঙ্ক, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যানগানিজ, কপার, অ্যান্‌জিন, পটাশিয়াম।

রিভাইটাল এইচ. ওমেন পুষ্টি উপাদানগুলোর তালিকা: প্রাকৃতিক শ্যানন জিনসেও, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি২, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে১, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সিঙ্ক, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যানগানিজ, কপার, অ্যান্‌জিন, সেলেনিয়াম, ভিটামিন কে২।

রিভাইটাল এইচ

কী কী করবে? কী কী করবে?

- শক্তি বৃদ্ধি করে দেবে।
- শক্তি বৃদ্ধি করে দেবে।
- শক্তি বৃদ্ধি করে দেবে।
- শক্তি বৃদ্ধি করে দেবে।
- শক্তি বৃদ্ধি করে দেবে।
- শক্তি বৃদ্ধি করে দেবে।

রিভাইটাল এইচ. ওমেন পুষ্টি উপাদানগুলোর তালিকা: প্রাকৃতিক শ্যানন জিনসেও, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি২, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে১, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সিঙ্ক, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যানগানিজ, কপার, অ্যান্‌জিন, সেলেনিয়াম, ভিটামিন কে২।

রিভাইটাল এইচ. ওমেন পুষ্টি উপাদানগুলোর তালিকা: প্রাকৃতিক শ্যানন জিনসেও, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি২, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে১, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সিঙ্ক, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যানগানিজ, কপার, অ্যান্‌জিন, সেলেনিয়াম, ভিটামিন কে২।

সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলতেই আপনার জীবনে অগ্রাধিকার দিতে হবে...

রিভাইটাল এইচ. ওমেন পুষ্টি উপাদানগুলোর তালিকা: প্রাকৃতিক শ্যানন জিনসেও, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি২, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি২, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে১, ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সিঙ্ক, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যানগানিজ, কপার, অ্যান্‌জিন, সেলেনিয়াম, ভিটামিন কে২।

ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೈನಂದಿನ ಡೋಸ್



ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್, ವಿಟಾಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ರಿವೈಟಲ್ ಎಜ್ಸ್	
ದೈನಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತ	
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ	
ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ	1500 ಐಯು
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ1	1 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ2	1.4 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ3	10 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ6	0.8 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ12	0.8 ಮಿಕ್ರೋಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ	33 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಡಿ	300 ಐಯು
ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ	7 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಫಾಲ್ಟ್ ಆಸಿಡ್	0.08 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ	76.5 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಪಾನ್ಟೋತ್	59.48 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಸೆಜೆನ್	10.29 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಐರನ್	10 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಂ	3.13 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್	0.6 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಸೆಜೆನ್	0.52 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಅಲೂಮಿನಿಯಂ	0.1 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ	2.07 ಮಿಗ್ರಾಂ

ರಿವೈಟಲ್ ಎಜ್ಸ್ ವಿಮೆನ್	
ದೈನಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತ	
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ	
ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ	1300 ಐಯು
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ1	0.8 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ2	0.85 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ3	7 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ6	1.6 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ12	0.8 ಮಿಕ್ರೋಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ	30 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಡಿ	300 ಐಯು
ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ	5 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಕೆ1	25 ಮಿಕ್ರೋಗ್ರಾಂ
ಫಾಲ್ಟ್ ಆಸಿಡ್	0.08 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಫಾಲ್ಟೋಟ್	20 ಮಿಕ್ರೋಗ್ರಾಂ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ	25.0 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಪಾನ್ಟೋತ್	12.5 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಸೆಜೆನ್	10 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಐರನ್	21 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಂ	10.0 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್	4 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಸೆಜೆನ್	1.7 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಅಲೂಮಿನಿಯಂ	0.1 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಸೆಜೆನ್	40 ಮಿಕ್ರೋಗ್ರಾಂ
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ	30 ಮಿಕ್ರೋಗ್ರಾಂ



ಇದು ರಿವೈಟಲ್ ಎಜ್ಸ್ ಉಪಕ್ರಮ

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ.

Anne Wilson Schaeff

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಲಿ...

1. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. 2. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. 3. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೈನಂದಿನ ಡೋಸ್. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೈನಂದಿನ ಡೋಸ್. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.



ಪೋಷಕಾಂಶ	ದೈನಂದಿನ ಡೋಸ್
ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ	1500 ಐಯು
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ1	1 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ2	1.4 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ3	10 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ6	0.8 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ12	0.8 ಮಿಕ್ರೋಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ	33 ಮಿಗ್ರಾಂ
ವಿಟಾಮಿನ್ ಡಿ	300 ಐಯು
ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ	7 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಫಾಲ್ಟ್ ಆಸಿಡ್	0.08 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ	76.5 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಪಾನ್ಟೋತ್	59.48 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಸೆಜೆನ್	10.29 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಐರನ್	10 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಂ	3.13 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್	0.6 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಸೆಜೆನ್	0.52 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಅಲೂಮಿನಿಯಂ	0.1 ಮಿಗ್ರಾಂ
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ	2.07 ಮಿಗ್ರಾಂ

ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ



ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ



ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ



ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ



ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ



ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ



ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ



ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ



ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಪದ: 212.5 (34) ಮಿಗ್ರಾಂ

न्यूट्रीशनल सप्लीमेंट की डेली डोज़

आपको मिलता है कॉम्प्लिमेंटरी एक्शन

नेचुरल जिन्सिंग, विटामिन्स और मिनरल्स का

Good
HEALTH
MORNINGS

रिवाइटल एच मैन	
प्रति डेबल्ट पोपन बॉटलमेंड जलककरी	
नेचुरल जिन्सिंग एक्स्ट्रैक्ट	212.5 (30%) मिग
विटामिन ए	1500 आइयू
विटामिन बी1	1 मिग
विटामिन बी2	1.4 मिग
विटामिन बी3	10 मिग
विटामिन बी6	0.4 मिग
विटामिन बी12	0.8 एसजीसी
विटामिन सी	33 मिग
विटामिन डी3	300 आइयू
विटामिन ई	7 मिग
प्रोबिओटिक्स	0.08 मिग
डेविनियम	76.9 मिग
एसेंशियल फैट्स	59.43 मिग
ज़िंक	10.29 मिग
आयरन	10 मिग
मैगनीशियम	3.13 मिग
सील्फोन	0.6 मिग
कॉपर	0.52 मिग
असोडीन	0.1 मिग
पोटैशियम	2.07 मिग

रिवाइटल एच वुमन	
प्रति डेबल्ट पोपन बॉटलमेंड जलककरी	
नेचुरल जिन्सिंग एक्स्ट्रैक्ट	212.5 (30%) मिग
विटामिन ए	1300 आइयू
विटामिन बी1	0.8 मिग
विटामिन बी2	0.88 मिग
विटामिन बी3	7 मिग
विटामिन बी5	1.6 मिग
विटामिन बी12	0.8 एसजीसी
विटामिन सी	30 मिग
विटामिन डी2	300 आइयू
विटामिन डी	5 मिग
विटामिन ई	25 एसजीसी
प्रोबिओटिक्स	0.08 मिग
सुपेरोक्सिड	29 एसजीसी
डेविनियम	250 मिग
प्रोबिओटिक्स	125 मिग
ज़िंक	10 मिग
आयरन	21 मिग
मैगनीशियम	100 मिग
सील्फोन	4 मिग
कॉपर	1.7 मिग
असोडीन	0.1 मिग
पोटैशियम	40 एसजीसी
प्रोबिओटिक्स	30 एसजीसी



रिवाइटल एच

की एक पहल

अच्छा स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम खरीद सकें। हालाँकि, यह एक बेशकीमती बचत खाते की तरह हो सकता है

Anne Wilson Schaeff

अच्छे स्वास्थ्य को अपने जीवन की पहली प्राथमिकता बनाएं...

1. कॉपी राइटिंग और प्रिंटिंग का मूल्य, 2022, अक्टूबर 10, पृष्ठ 1, 8-17.

2. डिजाइन और प्रिंटिंग का मूल्य, 2022, अक्टूबर 10, पृष्ठ 1, 8-17. डिजाइन और प्रिंटिंग का मूल्य, 2022, अक्टूबर 10, पृष्ठ 1, 8-17.

डिजाइन और प्रिंटिंग का मूल्य, 2022, अक्टूबर 10, पृष्ठ 1, 8-17. डिजाइन और प्रिंटिंग का मूल्य, 2022, अक्टूबर 10, पृष्ठ 1, 8-17.

डिजाइन और प्रिंटिंग का मूल्य, 2022, अक्टूबर 10, पृष्ठ 1, 8-17. डिजाइन और प्रिंटिंग का मूल्य, 2022, अक्टूबर 10, पृष्ठ 1, 8-17.

REVITAL



दोपहर के खाने के बाद	दोपहर के खाने के बाद
शाम के खाने के बाद	शाम के खाने के बाद
रात के खाने के बाद	रात के खाने के बाद
सुबह के खाने के बाद	सुबह के खाने के बाद

आरंभ, विनोदा, आनंद राइस
आरंभ, विनोदा, आनंद राइस। आरंभ, विनोदा, आनंद राइस। आरंभ, विनोदा, आनंद राइस।

विनोदा
विनोदा, विनोदा, विनोदा। विनोदा, विनोदा, विनोदा। विनोदा, विनोदा, विनोदा।

आनंद राइस
आनंद राइस, आनंद राइस, आनंद राइस। आनंद राइस, आनंद राइस, आनंद राइस।

आरंभ, विनोदा, आनंद राइस
आरंभ, विनोदा, आनंद राइस। आरंभ, विनोदा, आनंद राइस। आरंभ, विनोदा, आनंद राइस।

विनोदा
विनोदा, विनोदा, विनोदा। विनोदा, विनोदा, विनोदा। विनोदा, विनोदा, विनोदा।

आनंद राइस
आनंद राइस, आनंद राइस, आनंद राइस। आनंद राइस, आनंद राइस, आनंद राइस।

आरंभ, विनोदा, आनंद राइस
आरंभ, विनोदा, आनंद राइस। आरंभ, विनोदा, आनंद राइस। आरंभ, विनोदा, आनंद राइस।

आनंद राइस
आनंद राइस, आनंद राइस, आनंद राइस। आनंद राइस, आनंद राइस, आनंद राइस।

आरंभ, विनोदा, आनंद राइस
आरंभ, विनोदा, आनंद राइस। आरंभ, विनोदा, आनंद राइस। आरंभ, विनोदा, आनंद राइस।

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ

ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੇਂਗ,
ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ
ਪੂਰਕ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ

Good
HEALTH
MORNINGS

ਰਿਵਾਈਟਲ ਐੱਚ ਮਰਟ	
100% ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ	
ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੇਂਗ	212.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ	1500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ1	1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ2	1.4 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ3	10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6	3.8 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12	0.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ	30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3	300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ	7 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ	0.05 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	76.0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਡਾਕਟਰਿਸ	59.45 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਫੋਸ	13.25 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਮਾਇਨਰ	10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਮਿਨਰਲਿਸ	3.13 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਗਿਲੀਓ	0.6 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਲਾਈਸ	0.52 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਮਾਇਨਰਿਸ	0.1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ	2.07 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ

ਰਿਵਾਈਟਲ ਐੱਚ ਮਰਿਲਾ	
100% ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ	
ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੇਂਗ	212.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ	1500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ1	0.8 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ2	0.85 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ3	7.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6	1.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12	0.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ	30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3	300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ	5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ	25 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	0.05 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	23 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	21 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	4 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	1.7 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	0.1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	43 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	33 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ



ਰਿਵਾਈਟਲ ਐੱਚ

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਓ...

1. ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੇਂਗ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।
2. ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੇਂਗ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੇਂਗ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੇਂਗ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।



ਪ੍ਰੋਟੀਨ	ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਫੋਸ	ਫੋਸ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਮਾਇਨਰ	ਮਾਇਨਰ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ	ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਦਿਲ ਦੇ ਬੀਜ

ਦਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਜਿਨਸੇਂਗ

ਜਿਨਸੇਂਗ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ

ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੇਂਗ ਦੀ ਪੁਰਤਾ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ।

నూట్రీషన్ సప్లిమెంట్ యొక్క రోజువారీ మోతాదు

సహజ జిన్నెంగ్, విటమిన్లు మరియు
ఖనిజాల అనుబంధ చర్యను



రివైటల్ హెల్త్ మెన్	
ప్రతి బియ్యం కోసం వారాంతర మోతాదులు	
మూల బియ్యం హెల్త్ మెన్	212.5 (3%) మెర్లా
విటమిన్ ఏ	1600 ఐఐఐ
విటమిన్ బి1	1 మెర్లా
విటమిన్ బి2	1.4 మెర్లా
విటమిన్ బి3	10 మెర్లా
విటమిన్ బి6	0.8 మెర్లా
విటమిన్ బి12	0.8 మెరిబి
విటమిన్ సి	33 మెర్లా
విటమిన్ డి3	350 ఐఐఐ
విటమిన్ ఐ	7 మెర్లా
కాల్షియం	0.08 మెర్లా
కార్బోన్	76.9 మెర్లా
ఫాస్ఫోరస్	59.43 మెర్లా
మిగ్	10.29 మెర్లా
అదన్	10 మెర్లా
హెల్త్ సేవ	3.13 మెర్లా
ట్రాన్స్ ఫెటర్స్	0.6 మెర్లా
కాఫీన్	0.52 మెర్లా
అయాడిన్	0.1 మెర్లా
కొలాన్ జెనుస్	2.07 మెర్లా

అందిస్తుంది



రివైటల్ హెల్త్ మెన్	
ప్రతి బియ్యం కోసం వారాంతర మోతాదులు	
మూల బియ్యం హెల్త్ మెన్	212.5 (3%) మెర్లా
విటమిన్ ఏ	1600 ఐఐఐ
విటమిన్ బి1	6.8 మెర్లా
విటమిన్ బి2	0.88 మెర్లా
విటమిన్ బి3	7 మెర్లా
విటమిన్ బి6	1.8 మెర్లా
విటమిన్ బి12	0.8 మెరిబి
విటమిన్ సి	30 మెర్లా
విటమిన్ డి3	300 ఐఐఐ
విటమిన్ ఐ	5 మెర్లా
విటమిన్ బి1	25 మెరిబి
కార్బోన్	0.08 మెర్లా
ఫాస్ఫోరస్	20 మెరిబి
కార్బోన్	250 మెర్లా
ఫాస్ఫోరస్	125 మెర్లా
కాల్షియం	10 మెర్లా
అదన్	11 మెర్లా
హెల్త్ సేవ	200 మెర్లా
ట్రాన్స్ ఫెటర్స్	4 మెర్లా
కాఫీన్	1.7 మెర్లా
అయాడిన్	0.1 మెర్లా
బియ్యం	40 మెరిబి
కొలాన్ జెనుస్	30 మెరిబి

రివైటల్ హెల్త్

యొక ఒక ప్రోత్సాహం

మంచి ఆరోగ్యం అనేది మనం కొనుగోలు చేయగలిగినది కాదు. అయితే, ఇది ఒక అత్యంత విలువైన సేవింగ్స్ అకౌంట్

Anne Wilson Schaeff

మీ జీవితంలో మంచి ఆరోగ్యానికి మంచి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి...

1. డిప్లొమా ఇన్ డయాట్స్ అండ్ ఫిట్నెస్, 2002, అంబాల్, 15, 20-1, A11.
2. మెట్రిక్ డి.ఎల్. మెట్రిక్ అంబాల్ డిప్లొమా ఇన్ డయాట్స్ అండ్ ఫిట్నెస్, 2002, అంబాల్, 15, 20-1, A11.
3. డి.ఎల్.ఎల్. అంబాల్, అంబాల్, 2002, అంబాల్, 15, 20-1, A11.

© 2023 Revital Health. All rights reserved. Revital Health is a registered trademark of Revital Health. Revital Health is a registered trademark of Revital Health. Revital Health is a registered trademark of Revital Health.

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ప్రతిరోజు ప్రాతాంధ్రం
విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు మరియు ముగింపు కోసం

ஊட்டச்சத்து சப்ளிமண்டுகளைத் தினமும் எடுத்துக் கொள்வது

இயற்கை ஜின்சிங், வைட்டமின்கள், தாதுஉப்புகளின் குறைநிரப்புச் செயல்பாட்டினை வழங்குகிறது



ரெவிட்டால் எச் ஆண்ட்ஸ்

ஒரு சத்திரமாவை ஊட்டச்சத்துமூலங்கள்

இருக்காத சத்திரமாவை 2125 (94) மி.லி

வைட்டமின் B1	1500 மி.லி
வைட்டமின் B6	1.4 மி.லி
வைட்டமின் B12	18 மி.லி
வைட்டமின் C	1.8 மி.லி
வைட்டமின் D3	0.8 மி.லி
வைட்டமின் E	33 மி.லி
வைட்டமின் K	360 மி.லி
வைட்டமின் A	7 மி.லி
கொலீசுதரம்	0.01 மி.லி
கால்சியம்	76.9 மி.லி
மெக்னீசியம்	58.41 மி.லி
தூய்மை	19.29 மி.லி
இரும்பு	13 மி.லி
மங்கனியம்	3.13 மி.லி
சென்னை	1.5 மி.லி
காபு	0.52 மி.லி
அடர்வுகள்	3.1 மி.லி
கொலீசுதரம்	2.07 மி.லி

ரெவிட்டால் எச் பென்கள்

ஒரு சத்திரமாவை ஊட்டச்சத்துமூலங்கள்

இருக்காத சத்திரமாவை 2125 (94) மி.லி

வைட்டமின் B1	1100 மி.லி
வைட்டமின் B6	0.8 மி.லி
வைட்டமின் B12	3.18 மி.லி
வைட்டமின் C	7 மி.லி
வைட்டமின் D3	1.5 மி.லி
வைட்டமின் E	0.8 மி.லி
வைட்டமின் K	36 மி.லி
வைட்டமின் A	700 மி.லி
வைட்டமின் A2	5 மி.லி
வைட்டமின் B12	26 மி.லி
கொலீசுதரம்	1.08 மி.லி
கால்சியம்	20 மி.லி
மெக்னீசியம்	125 மி.லி
தூய்மை	16 மி.லி
இரும்பு	21 மி.லி
மங்கனியம்	100 மி.லி
சென்னை	4 மி.லி
காபு	1.7 மி.லி
அடர்வுகள்	0.3 மி.லி
கொலீசுதரம்	0.4 மி.லி
கொலீசுதரம்	0.4 மி.லி



ரெவிட்டால் எச்

இன் முன்னெடுப்பு

நல்ல உடல்நலம் என்பது நம்மால் விலை கொடுத்த வாங்கக்கூடியதன்று. எனினும், அது மிகவும் மதிப்புமிக்க ஓர் சேமிப்புக் கணக்காக இருக்கலாம்.

Ann White School

நல்ல உடல்நலத்தை உங்கள் வாழ்வின் முதல் முன்னுரிமையாக்குங்கள்...

1. Revital ES: மூலக் கருவிகள். Revital ES, 2023. ரெவிட்டால் எச். 1-6-17.
2. மெக்னீசியம், இரும்பு, கால்சியம், மெக்னீசியம், சென்னை, காபு, அடர்வுகள், கொலீசுதரம், சென்னை, காபு, அடர்வுகள், கொலீசுதரம்.

Revital ES: மூலக் கருவிகள். Revital ES, 2023. ரெவிட்டால் எச். 1-6-17.
2. மெக்னீசியம், இரும்பு, கால்சியம், மெக்னீசியம், சென்னை, காபு, அடர்வுகள், கொலீசுதரம், சென்னை, காபு, அடர்வுகள், கொலீசுதரம்.

Revital ES: மூலக் கருவிகள். Revital ES, 2023. ரெவிட்டால் எச். 1-6-17.
2. மெக்னீசியம், இரும்பு, கால்சியம், மெக்னீசியம், சென்னை, காபு, அடர்வுகள், கொலீசுதரம், சென்னை, காபு, அடர்வுகள், கொலீசுதரம்.



மருத்துவமனை மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது	எல்லா மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது
மருத்துவமனை மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது	எல்லா மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது
மருத்துவமனை மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது	எல்லா மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது
மருத்துவமனை மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது	எல்லா மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது

இயற்கையிலேயே கிடைக்கக்கூடிய உயர்மானம் கொண்ட நல்ல உணவுகளை உண்பது உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும்.

முழுச் சிவந்த 'பழம்' 'பழம்' 'பழம்'

பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும். பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும். பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும்.

பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும். பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும். பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும்.

பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும். பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும். பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும்.

பழம் உங்கள் உடல்நலத்தை மேம்படுத்தும்.